

दिल्ली में आयोजित ६९वें गणतंत्र दिवस शिविर में सम्मिलित हुए गुजरात के एन. सी. सी. दल के सम्मान में आयोजित "स्नेह सम्मेलन" को गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री ओ. पी. कोहलीजी का संबोधन।

(दिनांक : ८ फरवरी, २०१८)

---

- मुझे खुशी है की आज उन एन. सी. सी. कैडेट्स के बीच में हूँ जो की इस वर्ष दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड और पी. एम. रैली में भाग लेकर आये है। आप सभी को विशेषरूप से गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था तथा आपने प्रभावशाली प्रदर्शन करके राज्य का गौरव बढ़ाया है। एन. सी. सी. के प्रति आपके समर्पण का तथा एन. सी. सी. के आदर्शों के प्रति आपकी कड़ी मेहनत का यह परिणाम है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।
- आज आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। उसकी जीवंत प्रस्तुति के लिये आपके द्वारा की गई मेहनत की भी मैं भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ।
- एन. सी. सी. ट्रेनिंग के दौरान तथा गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान आपको इस देश की गौरवशाली विरासत, संस्कृति तथा परंपराओं से परिचित होने का मौका मिला होगा। राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, धर्म- निरपेक्षता तथा निः स्वार्थ सेवा के प्रचार द्वारा राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में अपने आपको आप समर्पित करे ऐसा मैं आपको अनुरोध करता हूँ।

- मैं जानता हूँ की हमारी गुजरात सरकार एन. सी. सी. के प्रशिक्षण पर विशेष ज़ोर दे रही है तथा राज्य में एन. सी. सी. की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में सभी प्रकार की मदद कर रही है। मैं अपनी तरफ से भी सुनिश्चित करूंगा की इसकी गति बनी रहे।
- एन. सी. सी. के संदर्भ में मेजर जनरल सुभाष शरण द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। चरित्र निर्माण शिविर, रक्तदान शिविर, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत अभियान ये सब इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसके लिए मैं मेजर जनरल सुभाष शरण और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ की आपके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे जिससे हमारा राज्य ओर अधिक गौरवान्वित हो सके। धन्यवाद।